



HB PORTFOLIO LIMITED

Regd. Office : Plot No .31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurgaon -122001 (Haryana)
Ph. : 0124-4675500, Fax : 0124-4370985, E-mail : corporate@hbportfolio.com
Website : www.hbportfolio.com, CIN No. L67120HR1994PLC034148

December 5, 2020

Listing Centre

The Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400001

Company Code: 532333
Sub: - Newspaper Advertisement for loss of share certificate

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith the copy of the advertisement related to notice of loss of share certificate published in Business Standard (*Hindi & English Edition*) on December 5, 2020.

The copy of the said advertisements are also available on the website of the Company, www.hbportfolio.com

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours truly,
For HB Portfolio Limited

DINESH KAPOOR
(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As Above


A power gap for RE players

Despite protective tariff barriers, domestic manufacturers of renewable energy equipment struggle to make their mark



PARTIAL ECLIPSE

■ Total import of commodity* ■ China import (\$ million)



Commodity: Solar cells/photovoltaic cells (whether or not assembled in module/panel)	'14-15	'15-16	'16-17	'17-18	'18-19	'19-20
%Growth in total import	185.59	36.34	20.06	-43.72	-23.65	
%Share of China in total import	73.49	83.61	88.14	89.09	78.44	77.76
%Growth in Chinese import	224.9	43.72	21.35	-50.45	-24.30	

* From all countries including China Source: Ministry of Commerce

SHREYA JAI

New Delhi, 4 December

Domestic manufacturers of solar energy equipment should have been the happiest businesspeople in India. Over the past two years, the Centre has offered it the protection of high tariff barriers. But instead of spreading cheer, these moves have created more confusion, with manufacturers upping their demands for protection, and their customers, developers of solar power projects, crying foul.

As part of the recent efforts to ban imports from China, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has proposed a 20 per cent basic customs duty (BCD) on solar cell and module imports. The finance ministry is yet to approve this proposal. At the same time, in a recent order, the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) extended the safeguard duty of 15 per cent on solar equipment imports from China, first imposed in 2018, for another year.

This extension has come as a big relief for domestic solar equipment makers who have been at the receiving end of dumping by Chinese competitors. But project developers are less happy because solar equipment costs will rise — imports still account for 85 per cent of solar cells and modules — and, therefore, the cost of solar power. Project delays are also possible since developers may postpone imports till the

safeguard duty expires.

The problem is the constant flux in import policies. “We have juggled through too many policy changes in the last few years. We are talking about a BCD framework but that should be stable. It should remain for 10 years,” said Ramesh Nair, CEO, Adani Solar, an end-to-end solar power equipment manufacturer.

Nair was speaking at RE-Invest, an annual event hosted by the Centre for investors in renewable power, last week. As he pointed out, “Manufacturing has not taken off in solar for two reasons. One, the technology moves very fast. Secondly, there has been huge amount of dumping. There is an infrastructure and supply chain volume in China supported through government subsidy. That is something we are not able to match.”

Nair is correct. Almost 75 per cent of India's solar power capacity is built on Chinese solar cells, which is a component of a solar panel) and modules (the entire panel). India's solar cell manufacturing capacity stands at 3Gw and for modules it is 5Gw, whereas the country's solar power generation capacity stands at 32Gw.

It is no exaggeration that Chinese solar cells and modules have been instrumental in the growth of Indian solar power generation. Chinese solar equipment imports jumped nearly six times in 2013-14 when tenders for solar power projects were gathering momentum in India. Till 2017-18,

imports grew steadily, tapering 24 per cent after 2018, under the combined impact of the safeguard duty and a slowdown in the award of solar projects. Analyst reports show that China has reduced the benchmark price of solar photovoltaic panels by more than half to a global low of \$0.15-0.20 per kwh in the past eight months.

So how can Indian solar equipment manufacturers counter this competition? Domestic competitiveness has become critical because the industry has the potential to create close to 500,000 jobs and to meet India's commitments under the Paris Climate Change Agreement. “We need a robust policy — tariff barriers such as BCD, safeguard duty, anti-dumping duty for at least four or five years and treatment for manufacturers operating in special economic zones that is on a par with domestic companies,” said Gyanesh Chaudhary, managing director, Vikram Solar, at the RE-Invest conference.

Sixty-three per cent of India's solar cell and 43 per cent of module manufacturing facilities are located in SEZs. This has made BCD counter-productive for players such as Adani Solar and Vikram Solar because any duty imposed on imports is also levied on SEZs.

Last month, the Union Cabinet allocated ₹4,500 crore for the MNRE for “High Efficiency Solar PV Modules” under the production-linked incentive (PLI) scheme that the finance ministry announced for 10 sectors. Nair, however, doubted whether this would be enough.

Meanwhile, the country's wind turbine manufacturing industry has for long boasted about its strong domestic presence, despite the fact they have no duty protection. In recent years, however, many turbine makers have either fled the market or are making losses. One major reason for pushing the indigenous manufacturing to the brink has been a change in tariff regime in the wind power sector, which accounts for 45 per cent of RE power generation, roughly the same as solar power.

Aimed at reducing the tariff on wind power the Centre in 2017 retired the 25-year-old Feed-in-Tariff (FIT) mechanism under which the electricity regulator decide the tariff to award wind projects and introduced competitive bidding. As a result, tariffs almost halved to ₹2.5 per Mw, bringing wind power cost on a par with thermal and solar power. At the same time, capacity addition fell to a record low of 1860 Mw in 2017-18 from 5502 Mw the year before.

“The Indian market is driven by bidding by independent power producers. This does not give manufacturers room to grow,” said Tulsi Tanti, chairman and managing director, Suzlon Energy, India's first indigenous wind turbine manufacturer, at the conference. So, he added, “Aatm Nirbhar Bharat comes at right time to relook at manufacturing across the value chain in the wind sector too.” There is, as yet, no PLI scheme for wind power equipment makers, however.

As the clouds of Covid-19 disperse, the result of policy interventions might soon start to show. Earlier this year, the Centre awarded the first tender for solar manufacturing, which was won by Adani Solar and NYSE-listed Azure Power for constructing 2 Gw each of solar power manufacturing units with allied solar power plants. Another tender is expected soon.

But in the absence of a settled policy towards the sector, the domestic renewable energy sector remains where it has been for the past 15 years. Chaudhary quoted a Mirza Ghalib shayari to explain its plight: “Tazaaron khwahishen asi ke har khwahish pe dam nikle” (thousands of desires, each worth dying for).

A no-action monetary policy buys time for growth



BANKER'S TRUST

TAMAL BANDHYOPADHYAY

There is no surprise in the script of Friday's no-action policy of the Reserve Bank of India (RBI), the last before the Union Budget in February.

On expected lines, the banking regulator has accepted that the inflation will rise higher than its estimate and Indian economy will fare better than what it had anticipated in its October policy. Yet, it has continued with its accommodative stance — for now and even next year — and is ready to do anything to support growth, mauling by Covid-19 pandemic.

The market was apprehensive of some measures to drain excess liquidity in the system, which has brought down the overnight rates below the RBI's reverse repo rate and distorted the short-term yield curve, but the RBI has refrained from doing so. Reverse repo is the rate at which commercial banks park their excess liquidity with the central bank. The repo rate (4 per cent) and reverse repo rate (3.35 per cent) — both at their historic lows — form the so-called liquidity adjustment facility corridor for

the overnight rates.

On the face of it, the ultra-loose monetary policy despite rising inflation and green shoots of recovery may sound a bit puzzling. But globally all central banks have been doing so. The RBI does not want to rock the boat and is buying time for growth. Action for tightening the stance, if any, is unlikely to happen before April 2021 at the earliest, if inflation remains high.

Let's take a close look at key takeaways from the policy:

There is no change in policy rates. The rate setting body of the Indian central bank “unanimously” decided to continue to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary — at least through the current financial year and into the next year — to revive growth while ensuring that inflation remains within the target, going forward. In its October policy, one of the six members of the monetary policy committee was against such a long forward guidance.

Retail inflation rose to 76 per cent in October 2020, the highest in six years and higher than all analysts' estimates. Observing that the price pressures are spreading, the RBI has admitted that the outlook for inflation has turned adverse relative to expectations in the last two months, and raised its inflation projection to 6.8 per cent for the December quarter and 5.8 per cent for the March quarter of

financial year 2021, and 5.2-4.6 per cent in the first half of 2022, with risks broadly balanced.

This is a bit higher than what the market had expected. In October, the RBI had projected 5.4-4.5 per cent inflation for the second half of 2021 and 4.3 per cent for the first quarter of 2022.

On real GDP growth, the monetary policy committee (MPC) has found that along with the strong recovery in rural demand, urban demand has also been gaining momentum and business sentiment of manufacturing firms is improving. Although private investment continues to remain slack, real

GDP growth could be -7.5 per cent in 2021.

After 23.9 per cent and 7.5 per cent contraction in the first two quarters, respectively, the MPC expects the growth turning positive 0.1 per cent in the December quarter and 0.7 per cent in March quarter of 2021, leading to 21.9 - 6.5 per cent growth in the first half of 2022. The October policy had expected 9.5 per cent contraction in GDP in 2021 (-5.6 per cent in December quarter and 0.5 per cent in March quarter).

Despite higher inflation projection and tell-tale signs of growth returning to Indian economy, why has the RBI stuck to its accommodative stance even for the next year? Why has it not taken any step to suck out excess liquidity? For two reasons: The inflation is driven by supply-side issues, and the signs

of recovery are far from being broad-based and dependent on sustained policy support.

The MPC feels that inflation will remain elevated, barring a “transient relief” in the winter months from prices of perishables and this does not allow it to go for a rate cut now. In the RBI's language, high inflation “constrains monetary policy at the current juncture from using the space available to act in support of growth”.


Does this mean that the doors are still wide open for a rate cut next year? I don't think so. Look at what the RBI has said: “A small window is available for proactive supply management strategies to break the inflation spiral being fuelled by supply chain disruptions, excessive margins and indirect taxes.” Clearly, it has left the job of breaking the back of inflation to the government. If inflation is not contained, one cannot rule out tightening of the policy. But that will not happen before April 2021.

Bank stocks rose and the bond market rallied, relieved seeing no measure by the RBI to drain excess liquidity from the system. But the liquidity sugar rush may not be allowed to continue for very long. The RBI is buying time for growth, for now.

The writer, a consulting editor with Business Standard, is an author and senior adviser to Jana Small Finance Bank Ltd. Twitter: TamalBandhyay His latest book, Pandemonium: The Great Indian Banking Tragedy, has been released recently

How a Bengaluru NGO raised ₹220 cr for Covid fight

ANJULI BHARGAVA
New Delhi, 4 December



On March 24 as Covid-19 became a reality with a nationwide lockdown, Give India began a crowd-funding campaign that went viral. The sudden curfew had left many migrants and workers from rural areas stranded in cities, many had lost their jobs and few had savings to sustain themselves in the weeks to follow.

Just as the NGO set a target of raising ₹500 crore, the PM CARES fund was announced on March 28. Give India realised it needed to lower its ambition since many corporates and high networth individuals (HNIs) would respond directly to the PM's plea.

But cries for help continued to pour in from every nook and cranny. It became evident to Atul Satija, founder 2.0 and CEO, Give India, that while the government could do the major relief work, small but glaring and urgent gaps were emerging.

“We realised the need was insanely large,” says Satija. Nine out of 10 people in India are in the informal sector and it came to a grinding halt — be it maids, drivers, car cleaners or self-employed individuals like plumbers, electricians and tailors. Cash relief and dry rations were needed. Secondly, there was a shortage of PPE kits for frontline workers.

Give India's campaign caught the attention of celebrities and in three days, it raised ₹1 crore. The board also decided to approach corporates, CSR funds and contributions from

HNIs, a departure from “every-day giving” so that it could tap into a larger pool.

To monitor and ensure funds raised are deployed as best possible, Give India decided to set up a formal structure. A 16-member advisory board (most of whom donated) with Arun Seth, Kiran Mazumdar-Shaw, Devi Shetty, Sanjiv Mehta, Binny Bansal, Vaidyanathan among well-known industry representatives was set up, and a three-member steering committee — comprising Govind Iyer, Egon Zehnder partner and board member of Give India; Ingrid Srinath of Ashoka University; and Shailesh Haribhakti, independent director and chartered accountant — was requested to fast-track and clear proposals for funding relief.

A two-pronged strategy was adopted with Give India's Bengaluru team acting as a bridge. Trust and transparency were key in an exercise of this magnitude. So on the one hand, the team aggressively vetted the requests that were pouring in. And on the other, the advisory board and steering committee members did their best to bring in funds through companies,

foundations, CSR funds and HNIs. The Gates Foundation wrote the initial cheque and the fund got going.

Yet, Satija found that they could not work as fast as demanded. Some employees of the Nudge Foundation (also an NGO founded by Satija) were roped in. Nine graduates from ISB, Hyderabad, pitched in pro bono.

Google Pay and Phone Pay were pulled into the crowd-funding exercise, and once it scaled — thanks to endorsements from Bollywood stars — Give India did a “I for India” campaign in partnership with Facebook. This real-time fundraiser concert raised around ₹52 crore through a two-hour show, one of the largest such live exercises globally. This fundraiser brought in big contributions from corporate donors including the likes of Vinod Khosla, Indira Nooyi and Sundar Pichai. The Google Pay leadership team (five individuals from the team contributed ₹5 crore), Google.org, HNIs including Ajay Piramal, Anu Aga, Kiran Mazumdar-Shaw, Binny Bansal and Amit Chandra, and the Nilekanis all

contributed generously.

The money was used as cash relief (individuals got ₹3,000-7,000 in hand) for 500,000 families, cooked meals and dry ration kits were offered by NGOs, and for healthcare aid PPE kits were distributed. Flipkart and Walmart helped extend these to state governments, government hospitals and health workers and traffic workers. In Mumbai, mobile screening vans were set up in slums and low-income areas with the help of Give India funds for screening of Covid symptoms.

By the end, Give India raised ₹220 crore, reached out to over 1,200 non-profits and picked relief demands of 250-odd NGOs.

While the amount may be a tiny fraction of what PM CARES garnered, from a civil society point of view, this was the largest effort. Until last week, ₹190 crore had been disbursed. Satija says the only regret he has is of not being able to do enough and quickly. “The need was so large and unprecedented that we were always a step behind despite running full steam.”

The Singareni Collieries Company Limited
(A Government Company)
Regd. Office: KOTHAGUDEM - 507101, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE

Tenders have been published for the following Services / Material Procurement through e-procurement platform. For details, please visit <https://tender.telangana.gov.in> or <https://www.scolmines.com>

NIT/Enquiry No. - Description / Subject- Last date and time for Submission of bid(s)

E142000314- Transportation of Coal from OC-IV sec of PKOC, Manuguru Area to KCHP & Coal washery on weight basis for a period of two years - 21.12.2020 - 10:30 Hrs.

E182000310- Award of work of collection of one season environmental baseline data, preparation of EIA/EMP and obtaining Environmental Clearance (EC) from MoEF and CC for the proposed New Patrapura Coal Mine, Odisha state to a NABET accredited EIA Consultant Organization-23.12.2020-17:00 Hrs.

E102000308- Schedule Maintenance & testing of electrical equipment utilized at 132 KV & 33 KV Substations on rate contract for three years - 23.12.2020 - 17:00 Hrs.

E132000321- Periodical Random Testing of Permitted Explosives (P1 & P5) & Detonators used for blasting in coal in all underground mines and LDC Explosives & accessories used for blasting in Coal at all Opencast Projects of SCLL for a period of 2 years-23.12.2020-17:00 Hrs.

E142000315- Loading, Transportation and Delivering of Bottom Ash from NTPC Kundanapally & STPP to GDK,18,3, GDK-2&2A Inclines, VKP and GDK7 LEP mines for a period of two years -24.12.2020-10:30 Hrs. - **(GM/MP)**

NIT No. - Name of the work - Estimated Contract Value - Last date & time for Submission of bids

RS2/CVL/ET-48/2020-21- Modifications of old MVTC building along with existing sheds including construction of toilets for accommodating P&A Manager office of OCP-III at 8th Incline colony, RG-II area, GodavariKhan Dist. Peddapalli, Telangana State - Rs. 35,87,151/- -19.12.2020 - 4:30 PM. - **(GM-RG-II)**

YLD/CVL/ET-39/2020-21- Yielding rock toe walls including deck drains around 30m deck at Pit-I, KOCP-II, Veerandu area- Rs. 25,81,854/- 18.12.2020 - 4:30 PM. - **(DGM)(CVL)YLD**

PR/2020-21/MP/CVL/67 DIPR No. 1188-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2020-21

HB PORTFOLIO LIMITED
CIN : L67120HR1994PLC034148
Regd. Off. : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
Phone : + 91-124-4675500
Fax : + 91-124-4675500
E-mail : corporate@hbportfolio.com
Website : www.hbportfolio.com

NOTICE

Notice is hereby given that Kiran Jain, Shareholder of the Company has requested for issuance of Duplicate Share Certificate for 07 Equity Shares of Rs. 10/- each in lieu of lost/misplaced Original Share Certificate No. 361658 having Distinctive Nos. 29458394 to 29458400.

The Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate in favour of the above named Shareholder, if no objection is received within 15 days from date of publication of this Notice.

For HB Portfolio Limited
Sd/-
DINESH KAPOOR
(Company Secretary)
M. No. : FCS-6731
Place : Gurugram

Weekend Business Standard DELHI EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor : Shyamal Majumdar

RNI No. DELENG/2013/53036

Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in
Ph. 011-23720202, Fax : +91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact:
Ms. Mansi Singh
Head-Customer Relations
Business Standard Private Limited,
H/4 & 1/3, Building H, Paragon Centre,
Opp. Birla Centurion,
P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400013
E-mail: subs_bs@bsmail.in
or sms, SUB BS to 57007

HB ESTATE DEVELOPEERS LIMITED
CIN : L99999HR1994PLC034146
Regd. Off. : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
Phone : + 91-124-4675500
Fax : + 91-124-4370985
E-mail : corporate@hbestate.com
Website : www.hbestate.com

NOTICE

Notice is hereby given that Kiran Jain, Shareholder of the Company has requested for issuance of Duplicate Share Certificate for 20 Equity Shares of Rs. 10/- each in lieu of lost/misplaced Original Share Certificate No. 564381 having Distinctive Nos. 52141104 to 52141123.

The Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate in favour of the above named Shareholder, if no objection is received within 15 days from date of publication of this Notice.

For HB Estate Developers Limited
Sd/-
RADHIKA KHURANA
(Company Secretary)
M. No. : ACS-32557
Place : Gurugram

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement. Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned. Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or dissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.

No Air Surcharge

BAMBINO AGRO INDUSTRIES LIMITED
CIN No. : L15440TG1983PLC004363,
Registered Office: 4E, Surya Towers, S.P. Road, Secunderabad - 500 003
Ph. No: 040-44363322; Email Id: cs@bambinoagro.com; Website: www.bambinoagro.com

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Bambino Agro Industries Limited ("the Company") will be held on **Wednesday, December 30, 2020 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular No.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/GFD/CI/M/IR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as the "Circulars").

In accordance with the aforesaid Circulars, the notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-2020 sent on 04th December 2020 through electronic mode to all the shareholders who have registered their email addresses with the Company/Depository Participants. Accordingly, shareholders who have not yet registered or updated their email addresses are requested to register their email address on cs@bambinoagro.com or with their Depository Participant or send their consent along with their Folio No./DP ID Client ID and valid email address for registration. Shareholders may note that the notice of AGM and Annual Report will also be made available on the Company's website www.bambinoagro.com, website of KFin Technologies Private Limited ("RTA") <https://evoting.karvy.com> and on the website of stock exchange www.bseindia.com.

E-Voting:
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has engaged the services of its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. KFin Technologies Private Limited (CIN: U72400TG2017PT117649), ("KFinTech") Selenium Tower B, Plot 31&32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032, Telangana, India (Unit: Bambino Agro Industries Limited) for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-voting are provided in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

- The remote e-Voting facility shall commence on Sunday, December 27, 2020 from 9.00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, December 29, 2020 at 5.00 p.m. (IST).
- Those members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date i.e. Wednesday, December 23, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the AGM.
- The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again in the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off date, may obtain login-id and password for remote e-voting by sending a request at <https://evoting.karvy.com> or may contact on toll free number 1800 345 4001, as provided by KFinTech. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.

Book Closure:
Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, as amended from time to time and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, December 24, 2020 to Wednesday, December 30, 2020 (both days inclusive)** for taking record of the shareholders of the Company for the purpose of AGM of the Company and for determining the shareholders who would be entitled for the payment of dividend, if declared at the forthcoming AGM.

Dividend:
The Board of Directors of the Company has recommended a final dividend of Rs.1.60/- per equity share of face value of Rs.10/-each for the financial year ended March 31, 2020. The dividend, once approved by the shareholders in the forthcoming AGM will be paid on **Monday, January 11, 2021**, to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on the Record Date and in respect of the shares held in dematerialized mode, to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on that date. For shareholders who have not updated their bank account details with the Company, dividend warrants/demand drafts will be sent to their registered addresses. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their bank details with the depository participants in case of securities held in demat mode and shareholders holding securities in physical form should send a request for updating their bank details, to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), KFin Technologies Private Limited (Unit: Bambino Agro Industries Limited) Selenium Tower B, Plot 31&32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032, Telangana, India, e-mail: enward.ris@kfintech.com, Contact no. +91 40 67162222, and Toll Free No. 1800 345 4001.

Option to seek Speaker's Registration:
Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves by logging on to <https://meetings.kfintech.com> and clicking on the "Speaker Registration" option available on the screen after log in. The Speaker Registration will be opened during Sunday, December 27, 2020 to Monday, December 28, 2020. Only those members who are registered will be allowed to express their views or ask questions. The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers, depending upon availability of time as appropriate for smooth conduct of the AGM.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Chandrakanth Gorak, a Practicing Company Secretary, (CP No.11346) as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as electronic voting at the AGM in a fair and transparent manner. The result of the voting shall be declared not later than 48 hours of the conclusion of the AGM and the same shall be intimated to the Stock Exchanges and shall be uploaded in the website of the Company. Members who refer to the frequently asked questions before or during the AGM may contact the following persons or need to the Frequently Asked Questions (FAQs) section/e-voting user manual for shareholders available at the download section on <https://evoting.karvy.com>.

For Company	For Registrar & Share Transfer Agent
Mrs. Ritu Tiwary Company Secretary & Compliance Officer Bambino Agro Industries Limited 4E, Surya Towers, Sardar Patel Road, Secunderabad - 500003, Telangana Ph: 040 4436 3322 E-Mail: cs@bambinoagro.com	Mrs. C. Shobha Anand Assistant General Manager KFin Technologies Private Limited Unit: Bambino Agro Industries Limited Selenium Tower B, Plot 31&32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032, Telangana

**For Bambino Agro Industries Limited Sd/-
Ritu Tiwary
Company Secretary & Compliance Officer**

Place: Secunderabad
Date: 05th December 2020

फ्लिपकार्ट ने शुरू किया 2गुड लोकल

पीरजादा अबरार
बंगलुरु 4 दिसंबर, 2020



वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अब पारंपरिक खुदरा कारोबार को भी ई-कॉमर्स के लाभ से जोड़ने की कोशिश कर रही है। फ्लिपकार्ट के स्वतंत्र मूल्य चालित प्लेटफॉर्म 2गुड ने शॉपिंग सेंटers को ऑनलाइन करने के लिए 2गुड लोकल को लॉन्च किया है।

इस नए फॉर्मेट के तहत ऑफलाइन स्टोर्स, ब्रांडों और शॉपिंग सेंटर्स की देश भर के लाखों उपभोक्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल कॉमर्स हाइब्रिड मॉडल पर जोर दिया गया है। 2गुड लोकल ग्राहकों के साथ स्थानीय स्टोर्स (एकल ब्रांड अथवा बहुब्रांड स्टोर और शॉपिंग सेंटर) एवं खुदरा विक्रेताओं को कहीं अधिक प्रभावी तरीके से जुड़ने के लिए उन्हें डिजिटल दायरा बढ़ाने में समर्थ बनाएगा।

फिलफाल्ट के 2गुड के प्रमुख चाणक्य गुप्ता ने कहा, 'मूल्यपरक खर्च और सुविधा ऑनलाइन शॉपिंग अनुभवों के प्रमुख पहलू बन रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमने अपने लोकप्रिय मार्केटप्लेस पर ट्रैफिक का लाभ उठाने में स्थानीय ब्रांडों की मदद करने और उनके उत्पादों को देश भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए 2गुड लोकल को लॉन्च किया है।'

2गुड प्लेटफॉर्म पर काफी लोग मौजूद हैं और इससे ब्रांडों को अधिक समय तक खरीदारों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। गुप्ता ने कहा कि 2गुड लोकल उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बावजूद स्टोर के भीतर का अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा, 'हम तमाम स्थानीय ब्रांडों के साथ साझेदारी करने और देश भर के ग्राहकों की सेवा ऐसे समय में करने के लिए तैयार हैं जब सामाजिक दूरी को

ई-कॉमर्स: त्योहारी ऑर्डर में दमदार वृद्धि

इस साल त्योहारी सीजन के दौरान मात्रात्मक ऑर्डर में 56 फीसदी की बढ़ोतरी हुई



■ यूनिकॉमर्स की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल के त्योहारी सीजन के मुकाबले छोटे शहरों और कस्बों में करीब 99 फीसदी की वृद्धि दिखी

■ फैशन एवं एक्सेसरीज श्रेणी में ऑर्डर वॉल्यूम में पिछले साल के त्योहारी महीने के मुकाबले 71 फीसदी की वृद्धि

■ रिटर्न ऑर्डर में पिछले वर्ष के मुकाबले 35 फीसदी की कमी दिखी

अधिक रहा क्योंकि दुनिया फिलहाल कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है।' उन्होंने कहा, 'इस त्योहारी महीने के दौरान हमने ई-कॉमर्स में उम्मीद से कहीं अधिक वृद्धि देखी। इस दौरान पर्सनल केयर और सौन्दर्य एवं तंदुरुस्ती जैसी नई उभरती हुई श्रेणियों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखना दिलचस्प है।'

ई-कॉमर्स उद्योग के लिए पहली बार ऑनलाइन खरीदारों की बढ़ती संख्या और नई उभरती श्रेणियां सबसे आशाजनक संकेत हैं। पर्सनल केयर श्रेणी पिछले साल के त्योहारी महीने के

इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणी में त्योहारी

2 कंपनी समाचार

संक्षेप में

एस्पेन इंडस्ट्रीज व 4 अन्य के खाते कुर्क करने के आदेश

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने एस्पेन इंडस्ट्रीज और चार अन्य से 2.84 करोड़ रुपये की वसूली के लिए के उनके बैंक एवं डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश दिया है। बाजार नियामक सेबी ने जुलाई 2017 में कंपनी को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। कंपनी के इसमें विफल रहने पर कुर्की का यह आदेश दिया गया है। कंपनी ने सार्वजनिक निगम नियमों का पालन किए बगैर गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड जारी कर यह निवेश जुटाया था। सेबी के बृहस्पतिवार को जारी आदेश के मुताबिक चूककर्ताओं को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। उन्होंने नियामक के निर्देशों का पालन करने की कोई इच्छा नहीं दिखायी।

भाषा

सेल का नवंबर में उत्पादन 7 फीसदी बढ़ा

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल का कच्चा इस्पात उत्पादन नवंबर 2020 में करीब सात प्रतिशत बढ़कर 14.17 लाख टन रहा। पिछले साल नवंबर में कंपनी का कच्चा इस्पात उत्पादन 13.28 लाख टन था। सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि नवंबर का प्रदर्शन कोविड-19 के बाद कंपनी के लगातार सुधार प्रयासों का नतीजा है। इसके अलावा बाजार के सुधरते हालातों का भी इसे समर्थन मिला है। उन्होंने ने कहा कि सेल की घरेलू और निर्यात बाजारों में बिक्री बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। नवंबर में कंपनी ने 13.9 लाख टन की रिकॉर्ड बिक्री की है। *भाषा*

भारत के लकजरी फैशन क्षेत्र में यूरोपीय दिग्गज

अर्णाव दत्ता
नई दिल्ली, 4 दिसंबर

भारत में एचएॅंडएम के पहले कंट्री मैनेजर जेन इनोला ने अक्टूबर में स्वीडन के इस फैशन रिटेलर में अपने 23 साल का कार्यकाल पूरा किया। एचएॅंडएम के भारतीय कारोबार में पांच साल की सेवा के दौरान इनोला ने वह सब कर दिखाया जिसे इतने कम समय में किया जा सकता है।

इस ब्रांड की मौजूदगी पहले के मुकाबले कहीं अधिक है और इसने स्थानीय ग्राहकों का

काफी ध्यान आकर्षित किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वित्तीय प्रदर्शन ही रहेगा।

वर्ष 2015 में इनोला ने स्थानीय बाजार में एचएॅंडएम की कमान संभाली थी तो यह ब्रांड अपने प्रतिस्पर्धी ब्रांड जारा को मामूली अंतर से पछाड़ने में कामयाब रहा।

भारतीय बाजार में करीब एक दशक पहले दस्तक देने के बावजूद मार्च 2010 में स्पेन के फैशन रिटेल ब्रांड जारा ने 2019-20 में 1,571 करोड़ रुपये की बिक्री की। साथ ही उसकी मौजूदगी 12 शहरों में 22 दुकानों तक ही सीमित रही। जबकि इसके मुकाबले एचएॅंडएम

बैंक ऑफ इंडिया <p>Bank of India</p>	बैंक ऑफ इंडिया <p>बरिया शाखा</p>
	
साधारण जनता, सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एतद्वारा सृजित किया जाता है कि श्री रविश चंद्र कक्कड़ के नाम पर और पंजी नं. 6341 के तहत 24, 11,2020 को पंजीकृत श्री सत्य पाल द्वारा मुद्रा डाल्टन डीड निष्पादित की गई थी। III-बी-88, नंहेर नगर, गाजियाबाद में स्थित श्री रविश चंद्र कक्कड़ की संपत्ति से संबंधित जो बैंक से श्री रविश चंद्र कक्कड़ द्वारा ली गई ऋण सुविधा के लिए प्रतिभूति के रूप में 26.12.2000 को बैंक ऑफ इंडिया, बरिया शाखा के साथ श्री रविश चंद्र कक्कड़ द्वारा जमा की गई थी, शाखा की करिटेडी से गुम हो गई है। पूरी ऋण राशि का श्री रविश चंद्र कक्कड़ द्वारा भुगतान किया जा चुका है और 27.02.2015 तक बैंक ऑफ इंडिया के पास संश्लित का कोई प्रभार नहीं है। साधारण जनता, सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उचित मुद्रा डाल्टन डीड के साथ डील न करने और किसी के कर्ज में उक्त टाइटल डील के आने के मामले में उक्त वगित सूचना देने की सलाह दी जाती है।	
शाखा प्रबंधक	
बैंक ऑफ इंडिया, बरिया शाखा, फोन नं. – 0120–2866085, 2866084	

पशु आहार निर्माण शाला, रुद्रपुर
किच्चा बाईपास रोड, रुद्रपुर (छद्म सिंह नगर) फोन नं. 05944–242552 फैक्स नं. 05944–244510

ई-प्रोक्योरमेंट नोटिस												
अल्यकालीन निविदा सूचना संख्या-04 /Raw Material/CFP/2020-21, Date -05/12/2020												
निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा के द्वारा Two Bid System के अर्न्तगत पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उद्यमसिंहनगर) में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं /निर्माताओं /फर्मों से दिनांक 16.12.2020 के सांघ 05.00 बजे तक अल्यकालीन निविदा आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 17.12.2020 की प्रातः 11.00 बजे यूरोपी0ओएफ0 कार्यालय मंगल पडाव हद्दानी में खोली जायेगी। <p>तालिका क्रम संख्या 01</p>												
<table> <tbody><tr> <th>क्र0 सं0</th> <th>कच्चा माल विवरण</th> <th>कुल मात्रा</th> <th>घरोहर धनराशि ₹</th> <th>निविदा शुल्क GST सहित ₹</th> <th>आपूर्ति शैड्यूल</th> </tr> <tr> <td>01</td> <td>राइस पालिस</td> <td>1950 M.T.</td> <td>720000.00</td> <td>4720.00</td> <td>निविदा प्रपत्र के अनुसार</td> </tr> </tbody></table>	क्र0 सं0	कच्चा माल विवरण	कुल मात्रा	घरोहर धनराशि ₹	निविदा शुल्क GST सहित ₹	आपूर्ति शैड्यूल	01	राइस पालिस	1950 M.T.	720000.00	4720.00	निविदा प्रपत्र के अनुसार
क्र0 सं0	कच्चा माल विवरण	कुल मात्रा	घरोहर धनराशि ₹	निविदा शुल्क GST सहित ₹	आपूर्ति शैड्यूल							
01	राइस पालिस	1950 M.T.	720000.00	4720.00	निविदा प्रपत्र के अनुसार							
नोट- निविदा की शर्त तथा उपलब्धता एवं प्रवृत्तिरण का तरीका- <p>निविदा प्रपत्रों का मूल्य उपरोक्त तालिका के अनुसार जी.एस.टी. सहित, प्रति आइएम, निविदा प्रपत्र Online Internet की वेबसाइट https://uktenders.gov.in पर उपलब्ध है, तथा यही से Download एवं Upload किये जा सकते हैं। ई-निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती हैं। ई-निविदा से सम्बन्धित प्रश्न दिनांक 05.12.2020 की पूर्वाह्न 11.00 बजे से उपलब्ध रहेंगी।</p>												
सामान्य प्रबन्धक												

बिज़नेस स्टैंडर्ड
दिल्ली संस्करण
बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहरु हाउस, 4 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित <p>संपादक: केलाश नौटियाल</p>

आरएनआई न0 WBHN/2008/24333
पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599
सर्वकलेशन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें...
सुश्री मानसी सिंह
हेड कस्टमर रिलेशन्स
बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैराजान सेंटर, सेचुरी मिल्स के सामने, पी वी नर्मो, वर्ली, मुंबई 400 013
ई मेल... subs_bs@bsmail.in
या 57007 पर एसएमएस करके SUB BS

डिसकोमर... बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की विषय तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के डिजिटल एवं जाकारसी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेते है। पाठकों से उक्त विषय लेने की अवेधा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी डिजिटल सदस्य में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ डूआ है और न ही उनका समर्थन करता है। डिहापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दवा संबंधित विवादावदात से ही किया जाना चाहिए। न0 बिजनेस स्टैंडर्ड प्रािड का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टैंडर्ड का सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दैवानी और फौजदारी कार्यवाही शुु की जाएगी।
कोई इवाई अधिभार नहीं

एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड
CIN : L99999HR1994PLC034146
पंजी. कार्या. : प्लॉट नं. 31, एशलीन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : + 91-124-4675500,
फैक्स : + 91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbestate.com,
वेबसाइट : www.hbestate.com

सूचना
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की शेयरधारक किरण जैन ने अनुरोध किया है कि मूल शेयर प्रमाणपत्र सं. 564381 विशिष्ट सं. 52141104 से 52141123 जो कि खो गए/गुम हो गए उनके स्थान पर रू. 10/— प्रत्येक के 20 इक्विटी शेयरों हेतु डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाए।

यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी उपरोक्त नामक शेयरधारक के पक्ष में डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कार्यवाही करेगी।

कृते **एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड** हस्ता./—**राधिका खुशाना** (कम्पनी सचिव)

तिथि : 04/12/2020

स्थान : गुरुग्राम

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड
CIN : L67120HR1994PLC034148
पंजी. कार्या. : प्लॉट नं. 31, एशलीन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : + 91-124-4675500,
फैक्स : + 91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbportfollio.com,
वेबसाइट : www.hbportfollio.com

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की शेयरधारक किरण जैन ने अनुरोध किया है कि मूल शेयर प्रमाणपत्र सं. 361058 विशिष्ट सं. 29458394 से 29458400 जो कि खो गए/गुम हो गए उनके स्थान पर रू. 10/— प्रत्येक के 07 इक्विटी शेयरों हेतु डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाए।

यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी उपरोक्त नामक शेयरधारक के पक्ष में डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कार्यवाही करेगी।

कृते **एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड** हस्ता./—**दिनेश कपूर** (कम्पनी सचिव)

तिथि : 04/12/2020

स्थान : गुरुग्राम

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड
CIN : L65922HR1985PLC039336
पंजी. कार्या. : प्लॉट नं. 31, एशलीन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
फोन : + 91-124-4675500,
फैक्स : + 91-124-4370985
ई-मेल : corporate@hbstockholdings.com,
वेबसाइट : www.hbstockholdings.com

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की शेयरधारक किरण जैन ने अनुरोध किया है कि मूल शेयर प्रमाणपत्र सं. 416128 विशिष्ट सं. 33504316 से 33504330 जो कि खो गए/गुम हो गए उनके स्थान पर रू. 10/— प्रत्येक के 15 इक्विटी शेयरों हेतु डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाए।

यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी उपरोक्त नामक शेयरधारक के पक्ष में डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कार्यवाही करेगी।

कृते **एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड** हस्ता./—**रुपेश कुमार** (कम्पनी सचिव)

तिथि : 04/12/2020

स्थान : गुरुग्राम

बर्गर किंग के आईपीओ को 157 गुना आवेदन

समी मोडक
मुंबई, 4 दिसंबर

विवक सर्विस रेस्टोरेंट बर्गर किंग इंडिया का आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) शुक्रवार को बंद हो गया और उस पेश किए गए शेयरों के मुकाबले 157 गुना से ज्यादा आवेदन मिले। इस आईपीओ को 11.7 अरब शेयरों (70,000 करोड़ रुपये) के लिए बोली मिली जबकि कंपनी ने सिर्फ 7.5 करोड़ शेयरों की पेशकश की थी। इस तरह से यह आईपीओ सबसे ज्यादा आवेदन पाने वाले आईपीओ में से एक बन गया।

कंपनी रेस्टोरेंट कारोबार का परिचालन करती है, जो कोविड-19 महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में से एक है। इसके बावजूद कंपनी के आईपीओ को इतने ज्यादा आवेदन मिले। क्यूआईबी श्रेणी में 87 गुना आवेदन मिले, जिसमें एंकर निवेश शामिल नहीं है। धनाढ्य निवेशकों (एचएनआई) और खुदरा श्रेणी में क्रमशः 354 गुना व 68 गुना आवेदन मिले। इस आईपीओ में खुदरा श्रेणी का कोटा 10 फीसदी है क्योंकि कंपनी मुनाफा के मानकों को पूरा नहीं कर पाई। सामान्य आईपीओ में खुदरा निवेशकों के लिए 35 फीसदी शेयर होते हैं। विश्लेषकों ने कहा कि बर्गर किंग इंडिया संगठित क्यूएसआर क्षेत्र में काम करती है, जहां अगले पांच साल में बढ़त की सालाना दर 19 फीसदी रहने का अनुमान है।

एमएफ: 6 साल की लिवाली के बाद बिकवाली

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 4 दिसंबर

पिछले सात कैलेंडर वर्षों में पहली बार म्युचुअल फंड (एमएफ) भारतीय शेयरों के शुद्ध बिकवाल बनने के लिए तैयार है। म्युचुअल फंडों ने नवंबर में लगातार छठे महीने शुद्ध बिकवाली की। महीने के दौरान म्युचुअल फंडों ने 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के शेयरों की बिकवाली की। सालाना आधार पर घरेलू फंडों ने अब तक 20,000 करोड़ से अधिक की शुद्ध बिकवाली की है।

म्युचुअल फंड पिछले छह कैलेंडर वर्षों के दौरान शुद्ध लिवाल थे। वर्ष 2017 और 2018 में म्युचुअल फंडों ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लिवाली की थी। इससे पिछले 2013 में म्युचुअल फंडों ने शुद्ध बिकवाली की थी और 21,082 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। म्युचुअल फंड, बीमा संहितायें एवं अन्य वित्तीय संस्थानों सहित घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) के पास नवंबर में 43,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शेयर थे लेकिन इस साल 5,127 करोड़ रुपये की शुद्ध लिवाली की। इसके विपरीत, विदेशी

सीजन की बिक्री का मुख्य आकर्षण रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर मार्केटप्लेस काफी छूट और ऑफर दे रहे हैं। इस श्रेणी के ऑर्डर वॉल्यूम में वर्ष 2019 के त्योहारी महीने के मुकाबले 65 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

इस त्योहारी सीजन के दौरान उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में रिटर्न ऑर्डर में 35 फीसदी की कमी दर्ज की। फैशन एवं एक्सेसरीज श्रेणी में सबसे अधिक रिटर्न ऑर्डर बरकरार है।

लॉकडाउन के बाद ब्रांडों ने अपनी कारोबारी दक्षता में सुधार के लिए तकनीकी समाधानों को अपनाया शुरू कर दिया है। बड़े ब्रांड अब अपनी वेबसाइट के जरिये बिक्री के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। मार्केटप्लेस के ऑर्डर वॉल्यूम में 60 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जबकि ब्रांड वेबसाइटों में ऑर्डर वॉल्यूम में 77 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'भारत' (देश के छोटे एवं मझोले शहरों और ग्रामीण हिस्सों) से उपभोक्ताओं की मांग बढ़ रही है। छोटे एवं मझोले शहर महानगरों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। छोटे शहरों के इतर क्षेत्रों में पिछले साल के त्योहारी सीजन के मुकाबले लगभग 99 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। बड़े शहरों और महानगरों में वृद्धि लगभग 20 फीसदी रही।

घर से काम करने की अवधि बढ़ाई

ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने विश्वव्यापी महामारी कोरोनावायरस के कारण अपने 12,000 कर्मचारियों के लिए घर से काम करने (वर्क फरोम होम) की नीति को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया है। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक ई-मेल के अनुसार मौजूदा हालात के अकालन के आधार पर वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली इस फर्म ने कार्यालय में वापसी के दूसरे चरण को अगले साल मई के अंत तक बढ़ा दिया है। इससे पहले कंपनी द्वारा घर से काम करने की नीति में इस साल दिसंबर तक विस्तार कर दिया गया था। फ्लिपकार्ट के मुख्य जन अधिकारी कृष्णा राघवन ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एक पत्र में कहा है कि अपने पिछले कई महीनों के दौरान हमने एकजुट होकर काम करने के नए तर्के अपनाते हुए, सहयोगपूर्ण और आशावान रहकर इस विश्वव्यापी महामारी से निपटने में काफी लचीलापन और क्षमता *बीएस*

क्रिस वुड ने बढ़ाया इक्विटी में निवेश

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 4 दिसंबर



कंपनियों की आय में ठीक-ठाक सुधार के अभाव में मार्च 2020 के निचले स्तर से तेज उछाल ने जेफरीज के वैश्विक प्रमुख (इक्विटी रणनीतिकार) क्रिस्टोफर वुड को भारतीय इक्विटी बाजार के महंगे मूल्यांकन ने सतर्क रखा है। हालांकि अपने एशिया प्रशांत (जापान को छोड़कर) रिलेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो में उन्होंने भारतीय इक्विटी में अपना निवेश एक फीसदी बढ़ाया है। वुड ने अक्टूबर 2020 में भारतीय इक्विटी में अपना आवंटन बढ़ाया।

वुड ने निवेशकों को भेजे साप्ताहिक नोट ग्रीड एॅंड फियर में लिखा है, भारतीय शेयर बाजार सस्ते नहीं हैं और बाजार 12 महीने आगे की आय के 21.6 गुने पर कारोबार कर रहा है। लेकिन सकारात्मक चीज यह है कि इस गुणक में आने वाले समय में गिरावट की प्रवृत्ति रह सकती है। जेफरीज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में आय की रफ्तार 20

ने 5, 10 और 30 साल में परिपक्व होने वाला विशेष बॉन्ड जारी किया है, जहां विदेशी भागीदारी की कोई सीमा नहीं है। वुड का मानना है कि ये प्रतिभूतियां विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश के लिए समर्पित मार्ग मुहैया करा रही है जहां प्रवेश व निकासी को लेकर पूंजी का निवेशन नहीं है।

वुड ने कहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था व रुपये के लिए 2021 में अहम जोड़ने तेल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी है क्योंकि दुनिया साल 2019 की मांग के स्तर पर लौट रही है। वुड ने कहा कि भारत में साइक्लिकल रिकवरी भी हो रही है। एसएॅंडपी बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 45,000 अंकों की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया और इस अवधि में यह 76 फीसदी चढ़ा है।

इक्विटी के अलावा वुड ने ग्रीड एॅंड फियर के वैश्विक सांवरिन बॉन्ड पोर्टफोलियो में भारत का भारांक बढ़ाया है और इसके लिए उन्होंने काफी कम प्रतिफल वाले सिंगापूर के 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड का भारांक हटा दिया है। अप्रैल 2020 से सरकार

उल्लेखनीय गिरावट दिखने पर ही लिवाली दिखेगी। उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि निवेशक अपने इक्विटी के एक हिस्से को डेट में बदल रहे हैं, खासकर लघु अवधि के फंड के मामले में।'

ब्रोकरेज फर्मों के अनुसार, एक धारणा है यह भी कि भारतीय बाजार फंडामेंटल्स के मुकाबले आगे चल रहा है। यही कारण है कि भारत में संभावनाएं अन्य उभरते बाजारों के मुकाबले कम आकर्षक दिखती हैं। उदाहरण के लिए, भारत को लेकर यूबीएस का नजरिया टटस्थ बने रहने का है और उसने प्रति प्रत्येक आय (ईपीएस) में वृद्धि 2021 के लिए 25 फीसदी और 2022 के लिए 15 फीसदी का अनुमान जाहिर किया है।

यूबीएस ने कहा, 'हालांकि 2021 में वृद्धि और आय में पलटाव दिखनी चाहिए लेकिन हालिया प्रदर्शन ने मूल्यांकन (भारत के) को आसियान जैसे कम आकर्षक क्षेत्रों की श्रेणी में डाल दिया है।' उसने यह भी कहा कि सुधार के मोर्चे पर प्रगति, बजटीय घाटे का आकार और कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में ढील जैसे कारकों पर नजर रखने की जरूरत थी।